

न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 13/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 15.04.2015

श्री मोहनलाल पिता किशनलाल जाट निवासी साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

सड़क परिवहन एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये
परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय
उच्च राजमार्ग, खण्ड बांसवाडा, मुख्यालय निम्बाहेड़ा

-विपक्षी

आवेदन बाबत आरबीट्रेशन कार्यवाही विरुद्ध पारित एवार्ड दिनांक 23.07.
2014 प्रकरण संख्या 242/13 सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड
अधिकारी निम्बाहेड़ा

उपस्थिति:- 1-श्री नरेन्द्र कुमार नाहर, अधिवक्ता प्रार्थी
2-श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच खण्ड (मध्य प्रदेश सीमा तक) के चारलेन निर्माण (चौड़ा करने पेड शोल्डर सहित चारलेन का बनाने) हेतु प्रार्थी के खातेदारी, स्वामित्व-आधिपत्य व उपयोग-उपभोग की आराजी नम्बर 629 रकबा 0.04 है. एवं आराजी नम्बर 636 रकबा 0.01 है. किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त करते हुए राशि 2,92,215/-रूपये का मुआवजा का एवार्ड आदेश दिनांक 23.07.2014 को पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने पारित एवार्ड आदेश के विरुद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार-पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने विधि विपरीत रूप से, न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों की पूर्ण अवहेलना कर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 629 रकबा 0.04 है. एवं आ. नं. 636 रकबा 0.01 है. किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.05 है. का प्रचलित दर से मुआवजा निर्धारण नहीं कर अवाई पारित किया है। भूमि अवाप्ति से संबंधित मामलों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में हो चुका है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार पुनः अवाई जारी किया जावे। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम साकरिया की कृषि भूमि की बाजार दर 53,13,100/-रु. प्रति हैक्टेयर निर्धारित की है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के अन्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 31.03.2011 में राष्ट्रीय राजमार्ग के 100 मीटर की परिधि में स्थित कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर से तीन गुणा राशि से गणना कर मुआवजा राशि का अवाई पारित किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी की कृषि भूमि 100 मीटर की परिधि में अवस्थित है जिससे सक्षम प्राधिकारी को 53,13,100/-रु. से तीन गुणा यानि 1,59,39,000/-रु. से प्रार्थी की भूमि का अवाई पारित किया जाना चाहिए था किन्तु सक्षम प्राधिकारी ने प्रचलित बाजार दर से तीन गुणा राशि से अवाई पारित नहीं किया है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर 700 फीट गहरा ट्यूबवेल विद्यमान होकर सिंचाई एवं पिलाई होती है व कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु मिट्टी डलवायी गई है। प्रार्थी ट्यूबवेल, 1 हॉर्स पावर की मोटर व भूमि उपजाऊ बनाने हेतु डलवायी मिट्टी का मुआवजा 5,00,000/-रु. प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने कृषि भूमि में सिंचाई हेतु 60 हजार लीटर की क्षमता का 10 फीट गहरा पानी संग्रहण हेतु 30X30X10 कुल क्षेत्रफल 9000 वर्गफीट का निर्माण कर वाटर टैंक निर्मित कराया जिसकी वर्तमान लागत 5,00,000/-रु. प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थी अधिग्रहित कृषि भूमि का प्रचलित बाजार दर से 3 गुणा राशि से 7,96,950/-रु., कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु 5,00,000/-रु. वाटर टैंक का 5,00,000/-रु. कुलिया राशि 17,96,950/-रु. एवं इस पर धारा 3जी (2) के अनुसार 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोड़ते हुए कुल 19,76,645/-रु. प्राप्त करने का अधिकारी है अतः आवेदन स्वीकार कर संशोधित अवाई पारित फरमावें।

विपक्षी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण कर जिन्स गिरदावरी का राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया तत्पश्चात् सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा से करवाया गया, तदुपरान्त दोनों अधिकारियों की सर्वे रिपोर्ट सही व तथ्यात्मक होने पर भूमि की किस्म के अनुसार एवं जिन्स गिरदावरी का मिलान कर वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डी. एल. सी.) का तीन गुणा राशि से ही राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोड़ते हुए एवाई जारी किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उप पंजीयक निम्बाहेड़ा द्वारा बाजार दरों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 100 मीटर की परिधि के भीतर स्थित भूमियां होने से उसे बाजार दर (डी.एल.सी.) से तीन गुणा करके ही बाजार दरें प्रस्तुत की हैं जिसके अनुसार प्रार्थी को उसकी ग्राम साकरिया स्थित अवाप्ताधीन भूमि का बाजार दर से तीन गुणा करके 53130/-रु. प्रतिएयर से भुगतान किया गया है। प्रार्थी ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर अपने मन मकसूद तरीके से मुआवजा राशि की मांग की है जो स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जहां तक भूमि अवाप्ति से संबंधित मामलों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में होने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13 अधिनियमों (जिनके अन्तर्गत कम संख्या 7 पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 अंकित है) पर उक्त अधिनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 28.08.2015 से लागू हुआ है जबकि उक्त एवाई राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व ही दिनांक 23.07.2014 को जारी किया जा चुका है जिससे उक्त अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 28.08.2015 से पूर्व पारित एवाई पर लागू नहीं है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन की प्रार्थी की कृषि भूमि का बाजार दर से तीन गुणा करके मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा ने सक्षम प्राधिकारी के यहां जरिये पत्रांक/पंजी./13/175 दिनांक 16.12.2013 से बाजार दरों (डी.एल.सी.) का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह एन. एच. से 0-100 की परिधि में स्थित भूमियों का ही विवरण प्रस्तुत किया है जो कि प्रचलित दर से तीन गुणा

की हुई दरें हैं। अतः प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि का तीन गुणा दर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है।

जहां तक बाउण्ड्रीवाल, पाईपलाईन एवं वृक्षों आदि संरचनाओं का मुआवजा नहीं देने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है तथा जिसका सिंचित कृषि भूमि की 3 गुणा दर से अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोड़ते हुए प्रार्थी को मुआवजा भुगतान किया गया है।

साथ ही प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय में तथा इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसकी अवाप्ताधीन कृषि भूमि पर बाउण्ड्रीवाल, पाईपलाईन एवं वृक्षों आदि संरचनाओं के होने के कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित एवार्ड आदेश दिनांक 23.07.2014 विधि-सम्मत् होकर एवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)